



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1122 राँची, शुक्रवार,

14 दिसम्बर, 2018 (ई०)

---

### भारत निर्वाचन आयोग

-----  
अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2018

संख्या-576/एक्जिट/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-1/2018--यतः गुजरात एवं झारखण्ड राज्यों के विधान सभा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 22 नवम्बर, 2018 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/78/2018 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा,

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 20-12-2018 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 22 नवम्बर, 2018, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/78/2018 के द्वारा घोषित गुजरात में

72-जसदण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं झारखण्ड में 71-कोलेबिरा(अ०ज०जा०) से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

एन०टी०भूटिया,  
सचिव ।

-----

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव

-----

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

10<sup>th</sup> December, 2018

**No.576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018--** Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the Legislative Assemblies in the States of Gujarat & Jharkhand, has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/78/2018, dated 22<sup>nd</sup> November, 2018.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. and 5.30 P.M. on 20-12-2018 (Thursday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/78/2018, dated 22<sup>nd</sup> November, 2018 from **72-Jasdan Assembly Constituency in Gujarat and 71-Kolebira(ST) Assembly Constituency in Jharkhand**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

**N.T.BHUTIA,**  
SECRETARY.